



निम्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य Medicaid, Child Health Plus और Essential Plan नामितों के लिए परिवर्तन आ रहे हैं

NY State of Health
न्यूयॉर्क का आधिकारिक
स्वास्थ्य योजना बाजार है।

यदि आप 19 वर्ष या अधिक
आयु के हैं या New York
State में रहते हैं, तो हम
आपके द्वारा वहन की जा
सकने वाली कीमत पर
स्वास्थ्य बीमा खोजने में
आपकी सहायता कर सकते हैं।

में नामांकन कैसे करूँ?

📍 nystateofhealth.ny.gov

या

☎ 1-855-355-5777 या
TTY: 1-800-662-1220

या

📍 आपके घर या कार्यालय के पास
किसी प्रमाणिक व्यक्तिगत
सहायता प्रदान करने वाले
सहायक द्वारा निःशुल्क
सहायता के माध्यम से।

NY State of Health लागू संघीय नागरिक
अधिकारों के कानून और राज्य कानूनों के
अनुपालन के तहत जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल,
संप्रदाय/धर्म, लिंग, आयु, वैवाहिक/पारिवारिक
स्थिति, गिरफ्तारी के रिकॉर्ड, आपराधिक
दोष, लिंग की पहचान, यौन अभिविन्यास,
पूर्वनिर्धारित आनुवंशिक विशेषताओं, सैन्य
स्थिति, घरेलू हिंसा पीड़ित की स्थिति और/या
प्रतिशोध के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

क्या आपके या परिवार के किसी सदस्य के पास वर्तमान में न्यूयॉर्क राज्य
Medicaid, Child Health Plus या **दी Essential Plan** के माध्यम से
स्वास्थ्य बीमा है?

न्यूयॉर्क राज्य जल्द ही पात्रता जांच फिर से शुरू करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया
जा सके कि नामिति अभी भी इन कार्यक्रमों के लिए योग्य हैं। इसका मतलब है कि
आपको अपने स्वास्थ्य बीमा या अपने परिवार के सदस्यों के बीमा को नवीनीकृत
करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि
COVID-19 महामारी शुरू होने से पहले से आपकी आय में बहुत बदलाव आया है,
तो संभव है कि स्वास्थ्य बीमा में नामांकित रहने के लिए आपको NY State of
Health को उस जानकारी की रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो।

यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप तैयार रहने के लिए अभी कर सकते हैं:

1 टेक्स्ट अलर्ट के लिए साइन अप करना।

NY State of Health से एसएमएस/एमएमएस टेक्स्ट अलर्ट प्राप्त करने के लिए
साइन अप करें ताकि आप महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा अपडेट से ना चुके, जिसमें आपके
कवरेज को नवीनीकृत करने का समय भी शामिल है। सब्सक्राइब करने के लिए,
1-866-988-0327 पर START टेक्स्ट करें।

2 पक्का करें कि आपका पता अप टू डेट है।

सुनिश्चित करें कि NY State of Health या आपके स्थानीय Medicaid कार्यालय के
पास आपका वर्तमान डाक पता, फोन नंबर और ईमेल पता है ताकि वे आपके स्वास्थ्य
बीमा के बारे में आपसे संपर्क कर सकें।

अगर आपके पास NY State of Health के माध्यम से बीमा है तो आप निम्न कर
सकते हैं:

- कॉल 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
- nystateofhealth.ny.gov पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें
- <https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor> पर एक
सहायक खोजें

यदि आपके पास अपने काउंटी के Medicaid कार्यालय या न्यूयॉर्क सिटी के Human
Resources Administration (HRA) के माध्यम से Medicaid है, तो अपने पते
और संपर्क जानकारी के साथ अपने स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें।

3 सूचित रहें।

अधिक जानकारी के लिए <https://info.nystateofhealth.ny.gov/>
COVID-19-Changes पर जाएं। NY State of Health नियमित समय
अनुसार इस पेज को नई सूचना के साथ अवगत करता रहेगा।